







21 וַיֹּאמֶר אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אֶל־ מֹשֶׁה אֲנֹשִׁי הַצִּבָּא הַבָּאִים לְמַלְחָמָה זֹאת חֲקֵת הַתּוֹרָה 21  
 और-कहा एलआज़ार से याजक याजक से पुरुषों-के से सेना-के जो-आए युद्ध-के-लिए यह विधि व्यवस्था-की  
[H0559](#) [H0499](#) [H3548](#) [H0413](#) [H0376](#) [H0935](#) [H4421](#) [H2063](#) [H2708](#) [H8451](#)

אֲשֶׁר־ צִוָּה יְהוָה אֶת־ מֹשֶׁה :  
 जो आज्ञा-दी यहोवा को मूसा  
[H6680](#) [H3068](#) [H0853](#) [H4872](#)

तब याजक एलीआज़ार ने सैनिकों से बात की। उसने कहा, “ये नियम वे ही हैं जिन्हें यहोवा न मूसा को दिए थे। वे नियम युद्ध से लौटने वाले सैनिकों के लिए हैं।

22 אֵךְ אֶת־ הַזָּהָב וְאֶת־ הַכֶּסֶף אֶת־ הַנְּחֹשֶׁת אֶת־ הַבְּרָזִל אֶת־ הַבְּרִיל וְאֶת־ אֶת־ 22  
 केवल को सोना और-को चांदी को तांबा को लोहा को टिन और-को  
[H0389](#) [H0853](#) [H2091](#) [H0853](#) [H3701](#) [H0853](#) [H0853](#) [H1270](#) [H0853](#) [H0913](#) [H0853](#)

הַעֲפָרָת :  
 सीसा  
[H5777](#)

किन्तु जो चीज़ें आग में डाली जा सकती हैं उनके बारे में अलग—अलग नियम हैं। तुम्हें सोना, चाँदी, काँसा, लोहा, टिन या सीसा को आग में डालना चाहिए और जब उन्हें पानी से धोओ वे शुद्ध हो जाएंगी। यदि चीज़ें आग में न डाली जा सकें तो तुम्हें उन्हें पानी से धोना चाहिए।

23 כָּל־ דְבָר אֲשֶׁר־ יָבֵא אֶת־ הַכֶּסֶף בָּאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בָּאֵשׁ וְיָהָר אֵךְ בְּמִי נִדְּהָ 23  
 सब वस्तु जो आएगी आग-में आग-में आग-में आग-में और-शुद्ध-होगी पर पानी-से अशुद्धि-के  
[H3605](#) [H1697](#) [H0935](#) [H0784](#) [H0784](#) [H0784](#) [H2891](#) [H0389](#) [H4325](#) [H5079](#)

וְיַחַטָּא וְכָל־ אֲשֶׁר לֹא־ יָבֵא אֶת־ הַכֶּסֶף תַּעֲבִירוּ בְּמַיִם :  
 शुद्ध-होगी और-सब जो नहीं आएगी आग-में आग-में पानी-में  
[H2398](#) [H3605](#) [H3808](#) [H0935](#) [H0784](#) [H4325](#)

किन्तु जो चीज़ें आग में डाली जा सकती हैं उनके बारे में अलग—अलग नियम हैं। तुम्हें सोना, चाँदी, काँसा, लोहा, टिन या सीसा को आग में डालना चाहिए और जब उन्हें पानी से धोओ वे शुद्ध हो जाएंगी। यदि चीज़ें आग में न डाली जा सकें तो तुम्हें उन्हें पानी से धोना चाहिए।

24 וְכִבְּסָתֶם בְּיָדֵיכֶם בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְאַחַר תְּבֹאוּ אֶל־ הַמַּחֲנֶה : 24  
 और-धोओगे कपड़े-तुम्हारे दिन-में सातवें और-शुद्ध-होओगे और-बाद-में आओगे पास छावनी-के  
[H3526](#) [H3117](#) [H7637](#) [H2891](#) [H0935](#) [H0413](#) [H4264](#)

सातवें दिन तुम्हें अपने सारे वस्त्र धोने चाहिए। जब तुम शुद्ध हो जाओगे।”

25 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־ מֹשֶׁה לֹא־מֹר :  
 और-कहा यहोवा से मूसा कहते-हुए  
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#)

उसके बाद तुम डेरे में आ सकते हो। तब यहोवा ने मूसा से कहा,

26 שָׂא וְחִצִּית אֶת־ רֹאשׁ מַלְקוֹחַ הַשְּׂבִי בְּאָדָם וּבְבְהֵמָה אֶת־ וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְרָאשֵׁי 26  
 उठा और-बांट को शिकार शिकार का बंदी-का आदम-में और-पशु-में तू और-एलआज़ार सेना-के-लिए और-मुखिये  
[H5375](#) [H0853](#) [H0996](#) [H0120](#) [H0929](#) [H4421](#) [H0499](#) [H3548](#)

אֲבוֹת הָעֵדָה :  
 पितरों-के मंडली-की  
[H0001](#) [H5712](#)

“मूसा तुम्हें याजक एलीआज़ार और सभी नेताओं को चाहिए कि तुम उन बन्दियों, जानवरों और सभी चीज़ों को गिनो जिन्हें सैनिक युद्ध से लाए हों।

27 וְחִצִּית וְבִין לְצִבָּא הַיְצָאִים הַמְּלַחְמָה תִּפְשִׁי מִלְּקוֹחַ בֵּין אֶת־ כָּל־ 27  
 और-बांट की शिकार शिकार बीच का बंदी-के पकड़नेवालों-के युद्ध-की निकलनेवालों-के सेना-के-लिए और-बीच सब  
[H2673](#) [H0853](#) [H0996](#) [H8610](#) [H4421](#) [H3318](#) [H0996](#) [H3605](#)

הָעֵדָה :  
 मंडली-की  
[H5712](#)

तब उन चीजों को युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और शेष इस्राएल के लोगों में बाँट देना चाहिए।

נֶפֶשׁ प्राण <a href="#">H5315</a>	אֶחָד एक <a href="#">H0259</a>	לְצָבָא सेना-के-लिए <a href="#">H3318</a>	הַיְצָאִים निकलनेवालों-के <a href="#">H3318</a>	הַמִּלְחָמָה युद्ध-की <a href="#">H4421</a>	אֲנָשִׁי पुरुषों-के <a href="#">H0376</a>	מֵאֵת से <a href="#">H0854</a>	לְיְהוָה यहोवा-के-लिए <a href="#">H3068</a>	מִכֹּס कर <a href="#">H4371</a>	וְהַרְמֹתָ और-उठाओगे <a href="#">H4371</a>	28
		וּמִן־הַצֹּאֵן भेड़बकरियों <a href="#">H6629</a>	וּמִן־גֹּדֹהּ और-से <a href="#">H2543</a>	וּמִן־הַבְּקָר और-से <a href="#">H1241</a>	וּמִן־הַבְּקָר गाय <a href="#">H1241</a>	וּמִן־הַבְּקָר और-से <a href="#">H1241</a>	מִן־הָאָדָם आदम <a href="#">H0120</a>	מִן־הָאָדָם से <a href="#">H0120</a>	הַמְּאֹת सैकड़ों-से <a href="#">H3967</a>	מִחֲמֹשׁ से-पाँच <a href="#">H2568</a>

जो सैनिक युद्ध में भाग लेने गये थे उनसे उन चीजों का आधा लो। वह हिस्सा यहोवा का होगा। हर एक पाँच सौ चीजों में से एक यहोवा का हिस्सा होगा। इसमें व्यक्ति मवेशी, गधे और भेड़े सम्मिलित हैं।

			יְהוָה: यहोवा-का <a href="#">H3068</a>	תְּרוּמַת उठावा <a href="#">H8641</a>	הַכֹּהֵן याजक <a href="#">H3548</a>	לְאֵלֶּיךָ एलआज़ार-को <a href="#">H0499</a>	וּנְתַתָּהּ और-देगा <a href="#">H5414</a>	וְתָקַח तू-लेगा <a href="#">H3947</a>	מִמְצִיְתָם आधे-उनके-से <a href="#">H4276</a>	29
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	----

सैनिकों ने युद्ध में जो चीज़े प्राप्त की उनका आधा हर एक से ली। तब उन चीज़ों को (प्रत्येक पाँच सौ में से एक) याजक एलीआज़ार को दो। वह भाग यहोवा का होगा

מִן־	הָאָדָם	מִן־	הַחֲמִשִּׁים	מִן־	אֶחָד	וְאֶחָד	וְתָקַח	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי־	וּמִמְצִיְתָם	30
से	आदम	से	पचास	से	पकड़ा-हुआ	एक	तू-लेगा	इस्राएल	पुत्रों-के	और-आधे-से	
	<a href="#">H0120</a>		<a href="#">H2572</a>		<a href="#">H0270</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H4276</a>	
שְׂמֹרֵי	לְלוֹיִם	אֹתָם	וּנְתַתָּהּ	הַבְּהֵמָה	מִכָּל־	הַצֹּאֵן	וּמִן־	הַחֲמִשִּׁים	מִן־	הַבְּקָר	
रखवालों-के	लेवियों-को	उन्हें	और-देगा	पशुओं	सब-से	भेड़बकरियों	और-से	गधों	से	गाय	
<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H2543</a>		<a href="#">H1241</a>	
								יְהוָה: यहोवा <a href="#">H3068</a>	מִשְׁכָּן निवास-के <a href="#">H4908</a>	מִשְׁמֶרֶת दायित्व <a href="#">H4931</a>	

और तब बाकी के लोगों के आधे में से हर एक पचास चीजों में से एक चीज़ लो। इसमें व्यक्ति, मवेशी, गधा, भेड़ या कोई अन्य जानवर शामिल हैं। यह हिस्सा लेवीवंशी को दो। क्यों क्योंकि लेवीवंशी यहोवा के पवित्र तम्बू की देखभाल करते हैं।”

	מֹשֶׁה: मूसा <a href="#">H4872</a>	אֶת־	יְהוָה	צָוָה	כַּאֲשֶׁר	הַכֹּהֵן	וְאֵלֶּיךָ	מֹשֶׁה	וַיַּעַשׂ	31
	मूसा	को	यहोवा	आज्ञा-दी	जैसा	याजक	और-एलआज़ार	मूसा	और-किया	
	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6680</a>		<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0499</a>	<a href="#">H4872</a>		

इस प्रकार मूसा और याजक एलीआज़ार ने वही किया जो मूसा को यहोवा का आदेश था।

הָאָרֶץ	מֵאֹת	שָׁשׁ־	צֹאֵן	הַצֹּבָא	עַם	בְּזֹזוּ	אֲשֶׁר	הָלוּ	וַיִּתֵּר	הַמִּלְקוֹחַ	וַיְהִי	32
हज़ार	सौ	छह	भेड़बकरियां	सेना-के	लोगों-ने	लूटा	जो	लूट-का	शेष	शिकार	और-था	
<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H6629</a>			<a href="#">H0962</a>		<a href="#">H0957</a>			<a href="#">H1961</a>	
								אֶלְפִים: हज़ार <a href="#">H0505</a>	וּחֲמִשָּׁתַּיִם और-पाँच <a href="#">H2568</a>	הָאָרֶץ हज़ार <a href="#">H0505</a>	וּשְׁבַעִים और-सत्तर <a href="#">H7657</a>	

सैनिकों ने छः लाख पचहत्तर हजार भेड़ें,

	אֶלְפִים: हज़ार <a href="#">H0505</a>	וּשְׁבַעִים और-सत्तर <a href="#">H7657</a>	שְׁנַיִם दो <a href="#">H8147</a>	וּבְקָר और-गाय <a href="#">H1241</a>	33
--	---	--	---	--	----

बहत्तर हजार मवेशी,

	אֶלְפִים: हज़ार <a href="#">H0505</a>	וּשְׁשִׁים और-साठ <a href="#">H8346</a>	אֶחָד एक <a href="#">H0259</a>	וּחֲמִשָּׁיִם और-गधे <a href="#">H2543</a>	34
--	---	---	--------------------------------------	--	----

एकसठ हजार गधे,

שָׁנִים	וַנִּפְּשׂ	אָדָם	מִן	הַנְּשִׁים	אֲשֶׁר	לֹא	יָדְעוּ	מִשְׁכָּב	זָכָר	כָּל-	נֶפֶשׁ	שְׁנַיִם	35
दो	प्राण	आदमी	से	स्त्रियों	जो	नहीं	जानती-थीं	शय्या	पुरुष-का	सब	और-प्राण	दो	
<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2145</a>	<a href="#">H4904</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H5315</a>				

וַשְׁלֹשִׁים  
और-तीस  
אֶלֶף:  
हज़ार  
[H0505](#) [H7970](#)

बत्तीस हजार स्त्रियाँ लूटी थी। (ये ऐसी स्त्रियाँ थीं जिनका किसी पुरुष के साथ यौन सम्बन्ध नहीं हुआ था।)

וַתְּהִי	הַמְּחֻצָּה	חֵלֶק	הַיְצָאִים	בַּצָּבָא	מִסְפָּר	הַצָּאן	שְׁלֹשׁ	מֵאוֹת	אֶלֶף	36
और-था	आधा	भाग	निकलनेवालों-का	सेना-में	गिनती	भेड़बकरियों-की	तीन	सौ	हज़ार	
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4275</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H4557</a>	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H5050</a>	

וַשְׁלֹשִׁים  
और-तीस  
אֶלֶף  
हज़ार  
וְשִׁבְעַת  
और-सात  
וַחֲמֵשׁ  
और-पाँच  
מֵאוֹת:  
सौ  
[H7970](#) [H0505](#) [H7651](#) [H0505](#) [H3967](#) [H2568](#)

जो सैनिक युद्ध में गए थे उन्होंने अपने हिस्से की तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ भेड़ें प्राप्त कीं।

וַיְהִי	הַמְּכֹס	לְיְהוָה	מִן	הַצָּאן	שֵׁשׁ	מֵאוֹת	חֲמֵשׁ	וְשִׁבְעִים:	37
और-था	कर	यहोवा-के-लिए	से	भेड़बकरियों	छह	सौ	पंचहत्तर	और-पचहत्तर	
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4371</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H7657</a>		

उन्होंने छः सौ पचहत्तर भेड़ें यहोवा को दीं।

וַהֲבִיֵּר	שָׁשָׁה	וַשְׁלֹשִׁים	אֶלֶף	וּמִכֹּסֶם	לְיְהוָה	שְׁנַיִם	וְשִׁבְעִים:	38
और-गाय	छत्तीस	और-तीस	हज़ार	और-कर-इनका	यहोवा-के-लिए	दो	और-सत्तर	
<a href="#">H1241</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H7970</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H4371</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H7657</a>	

सैनिकों को छत्तीस हजार मवेशी मिले। उन्होंने बहत्तर यहोवा को दिए।

וַחֲמֵרִים	שְׁלֹשִׁים	אֶלֶף	וַחֲמֵשׁ	מֵאוֹת	וּמִכֹּסֶם	לְיְהוָה	אֶחָד	וְשִׁשִּׁים:	39
और-गधे	तीस	हज़ार	और-पाँच	सौ	और-कर-इनका	यहोवा-के-लिए	एक	और-साठ	
<a href="#">H2543</a>	<a href="#">H7970</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H4371</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H8346</a>	

सैनिकों ने साढ़े तीस हजार गधे प्राप्त किये। उन्होंने यहोवा को एकसठ गधे दिये।

וַנִּפְּשׂ	אָדָם	שָׁשָׁה	עָשָׂר	אֶלֶף	וּמִכֹּסֶם	לְיְהוָה	שְׁנַיִם	וַשְׁלֹשִׁים	נַפְשׁ:	40
और-प्राण	आदमी	सोलह	दस	हज़ार	और-कर-इनका	यहोवा-के-लिए	दो	और-तीस	प्राण	
<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H4371</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H7970</a>	<a href="#">H5315</a>	

सैनिकों को सोलह हजार स्त्रियाँ मिलीं। उन्होंने बत्तीस स्त्रियाँ यहोवा को दीं।

וַיִּתֵּן	מוֹשֶׁה	אֶת-	מֹכֶס	תְּרוּמַת	יְהוָה	לְאַלְעָזָר	הַכֹּהֵן	כַּאֲשֶׁר	צִוָּה	יְהוָה	41
और-दिया	मूसा	को	कर	उठावा	यहोवा-का	एलआज़ार-को	याजक	जैसा	आज्ञा-दी	यहोवा	
<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4371</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0499</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>		

אֶת-מוֹשֶׁה:  
मूसा  
को  
[H4872](#) [H0853](#)

यहोवा के आदेश के अनुसार मूसा ने यहोवा के लिए दी गई उन सारी भेटों को याजक एलीआज़ार को दे दिया।

וּמִמְחֻצֵית	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	אֲשֶׁר	חָצָה	מוֹשֶׁה	מִן	הַאֲנָשִׁים	הַצְּבָאִים:	42
और-आधे-से	पुत्रों-के	इसाएल	जो	बांटा	मूसा	से	पुरुषों	सैनिकों-के	
<a href="#">H4276</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H2673</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H6633</a>	<a href="#">H0376</a>				

तब मूसा ने लोगों को प्राप्त आधे हिस्से को गिना। यह वह हिस्सा था जिसे मूसा ने युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों से लिया था।

שְׁבַעַת	אַלֶּף	וּשְׁלֹשִׁים	אַלֶּף	מֵאוֹת	שְׁלֹשׁ	הַלָּאֵן	מִן־	הַעֲדָה	מִחֲצַת	וַתְּהִי	43
सात	हज़ार	और-तीस	हज़ार	सौ	तीन	भेड़बकरियों	से	मंडली-का	आधा	और-था	
<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H7970</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H6629</a>		<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H4275</a>	<a href="#">H1961</a>	

אַלְפִים  
और-पांच  
हज़ार  
[H0505](#)

מֵאוֹת:  
सौ  
[H3967](#)

וַחֲמִשׁ  
और-पांच  
[H2568](#)

लोगों ने तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ भेड़ें,

וַבִּקְרָא	וּשְׁלֹשִׁים	אַלֶּף:	44
और-गाय	और-तीस	हज़ार	
<a href="#">H1241</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H0505</a>	

छत्तीस हजार मवेशी,

וַחֲמִשִּׁים	אַלֶּף	וַחֲמִשׁ	מֵאוֹת:	45
और-गधे	हज़ार	और-पांच	सौ	
<a href="#">H2543</a>	<a href="#">H7970</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H3967</a>	

तीस हजार पाँच सौ गधे

וַנִּפְשׂוּ	אָדָם	שְׁשָׁה	עָשָׂר	אַלֶּף:	46
और-प्राण	आदमी	सोलह	दस	हज़ार	
<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H0505</a>	

और सोलह हजार स्त्रियाँ प्राप्त कीं।

וַיִּלְחַק	מֹשֶׁה	מִמִּחֲצַת	בְּנֵי־	יִשְׂרָאֵל	אֶת־	הָאֶחָז	אֶחָד	מִן־	הַחֲמִשִּׁים	מִן־	47
और-लिया	मूसा	आधे-से	पुत्रों-के	इसाएल	को	पकड़ा-हुआ	एक	से	पचास	से	
<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H4276</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0270</a>	<a href="#">H0259</a>		<a href="#">H2572</a>		

הָאָדָם	וּמִן־	הַבְּהֵמָה	וַיִּתֵּן	אֹתָם	לְלוּוִים	שְׂמֵרֵי	מִשְׁמֶרֶת	מִשְׁכָּן	יְהוָה	כַּאֲשֶׁר
आदम	और-से	पशुओं	और-दिया	उन्हें	लेवियों-को	रखवालों-को	दायित्व	निवास-के	यहोवा	जैसा
<a href="#">H0120</a>		<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H3068</a>	

צִוְיָהּ  
आज्ञा-दी  
[H6680](#)

יְהוָה  
यहोवा  
[H3068](#)

אֶת־  
को  
[H0853](#)

מֹשֶׁה:  
मूसा  
[H4872](#)

मूसा ने हर एक पचास चीजों पर एक चीज यहोवा के लिए ली। इसमें जानवर और व्यक्ति दोनों शामिल थे। तब उन चीजों को उसने लेवीवंशी को दे दिया। क्यों क्योंकि वे यहोवा के पवित्र तम्बू की देखभाल करते थे। मूसा ने यह यहोवा के आदेश के अनुसार किया।

וַיִּקְרָבוּ	אֵל־	מֹשֶׁה	הַפְּקָדִים	אֲשֶׁר	לְאֵלִפִּי	הַצָּבָא	שָׂרֵי	הָאֲלָפִים	וּשְׂרָי	48
और-निकट-आए	पास	मूसा	अधिकारी	जो	हज़ारों-के-लिए	सेना-के	सरदार	हज़ारों-के	और-सरदार	
<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4872</a>			<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H8269</a>	

הַמֵּאוֹת:  
सैकड़ों-के  
[H3967](#)

तब सेना के संचालक (एक हजार सैनिकों के सेनापति तथा एक सौ सैनिकों के सेनापति) मूसा के पास गए।

וַיֹּאמְרוּ	אֵל־	מֹשֶׁה	עֲבָדֵינוּ	נִשְׂאוּ	אֶת־	רֹאשׁ	אֲנָשִׁי	הַמְּלָחָמָה	אֲשֶׁר	בְּיָדֵנוּ	49
और-कहा	से	मूसा	दासों-तेरे	गिने	को	सिर	पुरुषों-के	युद्ध-की	जो	हाथ-हमारे-में	
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H4421</a>		<a href="#">H3027</a>	

וְלֹא־  
और-नहीं  
[H3808](#)

נִפְקָד  
गायब  
[H0376](#)

מִמֶּנּוּ  
हममें-से

אִישׁ:  
पुरुष

उन्होंने मूसा से कहा, “तेरे सेवक हम लोगों ने अपने सभी सैनिकों को गिना है। हम लोगों में से कोई भी कम नहीं है।

50 וַיִּזְמִיד אֶזְעָרָה זָהָב כָּלִי מָצָא אֲשֶׁר אִישׁ יְהוָה קָרְבָּן אֶת-וַיִּקְרָב וְנִקְרָב וְהָיָה אֵשׁ אִישׁ יְהוָה קָरबण और-कड़ा कंगन सोने-का भांडा पाया जिसने पुरुष यहोवा-की भेंट को और-हम-लाए H0685 H2091 H3627 H4672 H0376 H3068 H0853 H7126

טְבַעַת עֲנִיל וְכוּמָז לְכַפֵּר עַל-נִפְשֵׁינוּ לְפָנֵי יְהוָה: אंगूठी बाली और-हार और-करने-को प्रायश्चित्त-करने-को पर प्राणों-हमारे साम्हने साम्हने यहोवा H3068 H6440 H5315 H3558 H5694 H2885

इसलिए हम लोग हर एक सैनिक से यहोवा की भेंट ला रहे हैं। हम लोग सोने की चीज़ें बाजूबन्द, शुजबन्द, अंगूठी, कान की बालियाँ और हार ला रहे हैं। यहोवा के ये भेंटें हमारे पापों के भुगतान के लिए हैं।”

51 וַיִּקַּח מוֹשֶׁה וַאֲלֵעָזָר הַכֹּהֵן אֶת-הַזָּהָב מֵאֲתָם כָּל-בָּלִי מַעֲשָׂה: וַיִּקַּח וַיִּקַּח מוֹשֶׁה וַאֲלֵעָזָר הַכֹּהֵן אֶת-הַזָּהָב מֵאֲתָם כָּל-בָּלִי מַעֲשָׂה: और-लिया और-लिया मूसा और-एलआज़ार याजक को सोना उनसे सब भांडा बनाया H4639 H3627 H3605 H0854 H2091 H0853 H3548 H0499 H4872 H3947

इसलिए मूसा ने वे सभी सोने की चीज़ें लीं और याजक एलीआज़ार को उन्हें दिया।

52 וַיְהִי וַיִּקְרָב וְנִקְרָב וְהָיָה אֵשׁ אִישׁ יְהוָה קָרְבָּן אֶת-וַיִּקְרָב וְנִקְרָב וְהָיָה אֵשׁ אִישׁ יְהוָה קָרְבָּן אֶת-וַיִּקְרָב וְנִקְרָב וְהָיָה אֵשׁ אִישׁ יְהוָה קָरबण और-था और-लिया मूसा और-एलआज़ार याजक उठाया जो उठावे-का सोना सब और-था H3967 H7651 H0505 H6240 H8337 H3068 H8641 H2091 H3605 H1961

וַחֲמִשִּׁים וּשְׁכָל מֵאֵת שָׂרֵי הַזָּהָב וּמֵאֵת שָׂרֵי הַמַּאֲוֹת: और-पचास और-पचास शेकेल से सरदारों-के सरदारों-के और-से हज़ारों-के सरदारों-के सैकड़ों-के H3967 H8269 H0853 H0505 H8269 H0854 H8255 H2572

एक हजार सैनिकों और सौ सैनिकों के सेनापतियों ने जो सोना एकत्र किया और यहोवा को दिया उसका वजन लगभग चार सौ बीस पौंड था।

53 אֲנָשֵׁי הַצִּבָּאָה בָּזְזוּ אִישׁ לְ: ने-पुरुषों ने सेना-के लूटा पुरुष अपने-लिए H0376 H0962 H0376

प्रत्येक सैनिक ने यद्ध में प्राप्त चीज़ों का अपना हिस्सा अपने पास रख लिया।

54 וַיִּקַּח מוֹשֶׁה וַאֲלֵעָזָר הַכֹּהֵן אֶת-הַזָּהָב מֵאֵת שָׂרֵי הַמַּאֲוֹת: और-लिया और-लिया मूसा और-एलआज़ार याजक को सोना से सरदारों-के सरदारों-के और-से हज़ारों-के सरदारों-के और-सैकड़ों-के H3967 H0505 H8269 H0854 H2091 H0853 H3548 H0499 H4872 H3947

וַיָּבֹאוּ אֵתוֹ אֶל-אַהֲלֵי מוֹעֵד וַיִּזְכְּרוּן לְבָנָיִךְ יִשְׂרָאֵל לְפָנֵי יְהוָה: और-लाए और-लाए उसे पास तंबू मिलन-के यादगार पुत्रों-के-लिए इस्राएल साम्हने यहोवा H3068 H6440 H3478 H2146 H4150 H0168 H0413 H0853 H0935

मूसा और एलीआज़ार ने एक हजार सैनिकों और एक सौ सैनिकों के सेनापतियों से सोना लिया। तब उन्होंने सोने को मिलापवाले तंबू में रखा। यह भेंट एक यादगार के रूप में इस्राएल के लोगों के लिए यहोवा के सामने थी।